



February 17, 2026

Listing Department,
BSE Ltd.,
Corporate Relation Department,
P.J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001

VLS FINANCE LTD.

Regd. Office : Ground Floor, 90, Okhla
Industrial Estate, Phase III, New Delhi-110020
Tel. : 91-11-46656666
Fax : 91-11-46656699
Email : vls@vlsfinance.com
Web : www.vlsfinance.com
CIN : L65910DL1986PLC023129

Scrip Code: 511333

Sub.: Submission of copy of Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed scanned copy of following newspaper publication:

- A. Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025;
- B. Notice of special Window for Re-lodgment of Transfer Requests of Physical Shares;
- C. Appeal to members for updating PAN and other details ('KYC' details) in records of the Company.

The above publications have been made in the following newspapers:

- Financial Express — English National daily
- Jansatta — Hindi National Daily (Regional language)

The soft copy of relevant publication is appended to this letter. The same is also available on the Company's website at www.vlsfinance.com.

Thanking you,
for VLS Finance Limited

(H. Consul) ✓
Company Secretary
M. No. – A11183



Encl: As above

- Copy to: 1) The National Stock Exchange of India Ltd., *Scrip Code:*
Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G-Block, *VLSFINANCE*
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-
400051
2) The Calcutta Stock Exchange Association. Ltd., *032019*
7, Lyons Range, Kolkata- 700 001

FE SUNDAY

INTEGRA CAPITAL LIMITED
(Formerly known as Integra Capital Management Limited)
CIN No. U74900DL1999PLC004021 | GST IN: 07AAGK0002PZK
Regd. Office: 201, Park Road, Sector 16, Gurgaon, Haryana, New Delhi - 122001

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025
(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2025 (Actual)	Quarter Ended 31.12.2024 (Actual)	Year Ended 31.03.2025 (Actual)
1.	Total Income from Operations (Net)	105.97	(09.47)	29.53
2.	Net Profit from Ordinary Activities After Tax	64.00	(00.00)	42.57
3.	Net Profit for the Period After Tax (After Extraordinary Items)	64.00	(00.00)	42.57
4.	Profit on Equity Share Capital (Face Value per Share is Rs. 10)	470.29	570.28	470.28
5.	Dividend on Equity Share Capital	-	-	17.10
6.	Dividend on Preference Shares (Face Value per Share is Rs. 100) (After Extraordinary Items)	2.58	(04.61)	(0.50)
7.	Dividend on Dividend (After Extraordinary Items) (Face Value per Share is Rs. 100)	1.38	(04.64)	(0.50)

Note: The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and year ended 31st December 2025 with the stock exchange under Regulation 33 of Listing Regulation and Disclosure Requirements Regulation, 2015. The full form of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website: www.bse.in and on the company's website.

For Integra Capital Limited (Formerly known as Integra Capital Management Limited)
Taruin Kumar
Managing Director
DIN No. 00030470

Place: New Delhi
Date: 14.02.2026

NAM SECURITIES LIMITED CIN: U74900DL1999PLC003531
Registered Office: 211, Anandahall, 13, Barambasa Road, New Delhi-110091
Email: info@namsecurities.in, Website: www.namsecurities.in

Extract of Unaudited Financial Results for Quarter Ended 31st December, 2025 (in Rs. Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	For the Quarter Ended 31.12.2025	For the 9 months ended 31.12.2025	For the Year Ended 31.03.2025
1.	Revenue	117.29	348.15	117.29
2.	Expenses	(116.19)	(348.15)	(116.19)
3.	Profit/(Loss)	1.10	0.00	1.10

Note: The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and year ended 31st December 2025 with the stock exchange under Regulation 33 of Listing Regulation and Disclosure Requirements Regulation, 2015. The full form of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website: www.bse.in and on the company's website.

For Nam Securities Limited
(Formerly known as Nam Securities Limited)
Kiran Goyal
Managing Director
DIN: 00020237

Place: New Delhi
Date: 14.02.2026

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - DELHI
4th FLOOR, JEWARI TOWER, PHASE II, GATEWAY INDIA, NEW DELHI - 110001

SALE PROCLAMATION
T.R.C. No. 1713/2022

PUNJAB NATIONAL BANK (B-08C) Vs. MANJIT KUMAR AND ANR.
EXECUTION OF SALE UNDER RULE 16, SECTION 2 OF SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993.

(C1) MANJIT KUMAR (SINGLE DEBTOR), REPRESENTED THROUGH LEGAL HEPS
(1) MRS. SUMAN ANAND (DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR), 14881-A2, SHYV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(2) SHWETA TALKAR (DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR), 14881-A2, SHYV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(3) SHIV NAGAR KANOL BACH, NEW DELHI-110005
(4) RAJANI ANAND (UNMARRIED DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR) 14881-A2, SHYV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(5) MANJIT KUMAR (UNMARRIED DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR) 14881-A2, SHYV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(6) MRS. SUMAN ANAND (WIFE OF LATE MANJIT KUMAR), 14881-A2, SHYV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(7) SHWETA TALKAR (DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR), 14881-A2, SHYV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(8) RAJANI ANAND (UNMARRIED DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR), 14881-A2, SHYV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(9) MANJIT KUMAR (UNMARRIED DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR), 14881-A2, SHYV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

(C2) MRS. SHREYA JEWELLERS, 2734-B3, ANAND VIHAR ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 (Sole Asset: U4841-A1, SHYV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005)

1. Whereas Transfer Receipt No. 1713/2022 in O.A. No. 2720299/2019 in the Principal Office, Debts Recovery Tribunal, Delhi for the recovery of a sum of Rs. 2,00,00,000/- together with costs and interest @ 18.25% p.a. with quarterly reset, from the date of filing of O.A. No. 14/04/2009 till the realization along with cost. Notice is hereby given that in pursuance of an order of the Debts Recovery Tribunal, Delhi, dated 14/04/2009, the said debt is to be realized along with cost from the said assets together with interest @ 18.25% p.a. with quarterly reset.

2. And whereas the said assets are situated at the address mentioned in the Schedule herewith and the said assets are situated at the address mentioned in the Schedule herewith and the said assets are situated at the address mentioned in the Schedule herewith.

3. And whereas the said assets are situated at the address mentioned in the Schedule herewith and the said assets are situated at the address mentioned in the Schedule herewith.

4. The Debts Recovery Tribunal, Delhi, has directed the said assets to be sold by public auction on 14/02/2026 at 10.00 am in the presence of the Debts Recovery Tribunal, Delhi, at the address mentioned in the Schedule herewith.

5. The Debts Recovery Tribunal, Delhi, has directed the said assets to be sold by public auction on 14/02/2026 at 10.00 am in the presence of the Debts Recovery Tribunal, Delhi, at the address mentioned in the Schedule herewith.

6. The Debts Recovery Tribunal, Delhi, has directed the said assets to be sold by public auction on 14/02/2026 at 10.00 am in the presence of the Debts Recovery Tribunal, Delhi, at the address mentioned in the Schedule herewith.

7. The Debts Recovery Tribunal, Delhi, has directed the said assets to be sold by public auction on 14/02/2026 at 10.00 am in the presence of the Debts Recovery Tribunal, Delhi, at the address mentioned in the Schedule herewith.

8. The Debts Recovery Tribunal, Delhi, has directed the said assets to be sold by public auction on 14/02/2026 at 10.00 am in the presence of the Debts Recovery Tribunal, Delhi, at the address mentioned in the Schedule herewith.

9. The Debts Recovery Tribunal, Delhi, has directed the said assets to be sold by public auction on 14/02/2026 at 10.00 am in the presence of the Debts Recovery Tribunal, Delhi, at the address mentioned in the Schedule herewith.

VLS FINANCE LIMITED
VLS Regd. Office: Ground Floor, 95, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110022
CIN: U65910DL1986PLC021219
Email: info@vlsfinance.com, Website: www.vlsfinance.com Ph: 011-4665 5660

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

In accordance with Section 133 of Securities and Exchange Board of India (Listing Regulations) and Disclosure Requirements Regulation, 2015 (SEBI Listing Regulations) and the Financial Results Regulations, 2015 (SEBI Financial Results Regulations), the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

The Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 are available on the website of the Company at www.vlsfinance.com and also on the website of the Stock Exchange at www.bse.in and on the website of the Stock Exchange at www.nse.in.

In compliance with Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, a Notice is hereby given that the same can be accessed by scanning the following QR Code:

For VLS Finance Limited
S.K. Agrawal
Managing Director
DIN: 00180753

Date: February 13, 2026
Place: New Delhi

Notice of Intention to Re-appoint Transfer Agent of Physical Shares

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MI1/D1/2022/ANND/30/150-2026 dated 23rd January 2026, regarding the re-appointment of the Transfer Agent of Physical Shares, the Company has issued a notice to the Transfer Agent of Physical Shares, M/s. RCMC Share Registrar Private Limited, to tender its resignation and to appoint M/s. RCMC Share Registrar Private Limited as the Transfer Agent of Physical Shares of the Company.

Notice of Intention to Re-appoint Transfer Agent of Physical Shares

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MI1/D1/2022/ANND/30/150-2026 dated 23rd January 2026, regarding the re-appointment of the Transfer Agent of Physical Shares, the Company has issued a notice to the Transfer Agent of Physical Shares, M/s. RCMC Share Registrar Private Limited, to tender its resignation and to appoint M/s. RCMC Share Registrar Private Limited as the Transfer Agent of Physical Shares of the Company.

Company's address:
VLS Finance Limited
VLS Regd. Office: Ground Floor, 95, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110022
Email: info@vlsfinance.com, Website: www.vlsfinance.com
Ph: 011-4665 5660

Registrar & Share Transfer Agent's address:
M/s. RCMC Share Registrar Private Limited
201st Floor, Delta Suburban Area Phase II, New Delhi-110029
Email: transfer.services@rcmc.com, Website: www.rcmc.co.in
Phone No. 011-26202468/9

ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED
Registered Office: 15th Floor, Park Road, Sector 16, Gurgaon, Haryana, New Delhi-122001
CIN: U65910DL1986PLC021219

DEMAND NOTICE

UNRECOVERED DEBTS OF THE DEBTOR UNDER AN ASSIGNMENT OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST DATE 14/02/2026

1. WHEREAS the Debtor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, has defaulted in the payment of the amount due to the Creditor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, under the Assignment of Financial Assets and Enforcement of Security Interest dated 14/02/2026.

2. WHEREAS the Debtor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, has defaulted in the payment of the amount due to the Creditor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, under the Assignment of Financial Assets and Enforcement of Security Interest dated 14/02/2026.

3. WHEREAS the Debtor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, has defaulted in the payment of the amount due to the Creditor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, under the Assignment of Financial Assets and Enforcement of Security Interest dated 14/02/2026.

4. WHEREAS the Debtor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, has defaulted in the payment of the amount due to the Creditor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, under the Assignment of Financial Assets and Enforcement of Security Interest dated 14/02/2026.

5. WHEREAS the Debtor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, has defaulted in the payment of the amount due to the Creditor, M/s. ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED, under the Assignment of Financial Assets and Enforcement of Security Interest dated 14/02/2026.

AAIRTE CAPITAL LIMITED
Regd. Office: Sector City 93B, 105 Floor, A-10, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110027
CIN: U65910DL1986PLC021219

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

Particulars	3 Months ended 31.12.2025 (Actual)	3 Months ended 31.12.2024 (Actual)	9 Months ended 31.12.2025 (Actual)	9 Months ended 31.12.2024 (Actual)
Revenue	105.97	105.97	105.97	105.97
Expenses	(116.19)	(116.19)	(116.19)	(116.19)
Profit/(Loss)	1.10	1.10	1.10	1.10

Note: The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and year ended 31st December 2025 with the stock exchange under Regulation 33 of Listing Regulation and Disclosure Requirements Regulation, 2015. The full form of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website: www.bse.in and on the company's website.

For AAIRTE Capital Limited
S.K. Agrawal
Managing Director
DIN: 00180753

Date: February 13, 2026
Place: New Delhi

FORM OF INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
IDEA BUILDERS PRIVATE LIMITED
OPERATING AS AN INVESTOR IN AN INVESTMENT BANKING
(Under sub-section (1) of regulation 30A of the Securities and Exchange Board of India (Investment Bankers) Regulations, 2019)

IDEA BUILDERS PRIVATE LIMITED
CIN: U65910DL1986PLC021219

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
OPERATING AS AN INVESTOR IN AN INVESTMENT BANKING
(Under sub-section (1) of regulation 30A of the Securities and Exchange Board of India (Investment Bankers) Regulations, 2019)

1. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

2. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

3. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

4. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

5. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

FORM OF INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
IDEA BUILDERS PRIVATE LIMITED
OPERATING AS AN INVESTOR IN AN INVESTMENT BANKING
(Under sub-section (1) of regulation 30A of the Securities and Exchange Board of India (Investment Bankers) Regulations, 2019)

IDEA BUILDERS PRIVATE LIMITED
CIN: U65910DL1986PLC021219

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
OPERATING AS AN INVESTOR IN AN INVESTMENT BANKING
(Under sub-section (1) of regulation 30A of the Securities and Exchange Board of India (Investment Bankers) Regulations, 2019)

1. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

2. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

3. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

4. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

5. The Company is invited to express its interest in becoming an investor in the Company.

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

Particulars	Quarter Ended 31.12.2025 (Actual)	Quarter Ended 31.12.2024 (Actual)	Year Ended 31.03.2025 (Actual)
Revenue	105.97	105.97	105.97
Expenses	(116.19)	(116.19)	(116.19)
Profit/(Loss)	1.10	1.10	1.10

Note: The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and year ended 31st December 2025 with the stock exchange under Regulation 33 of Listing Regulation and Disclosure Requirements Regulation, 2015. The full form of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website: www.bse.in and on the company's website.

For New Look Builders and Developers Private Limited
S.K. Agrawal
Managing Director
DIN: 00180753

Date: February 13, 2026
Place: New Delhi

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANAND PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED)
CIN: U74900DL1999PLC004021

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

SCHEDULE OF PROPERTY

1. PROPERTY: HOTEL BLUE SAPPHIRE NO. 3361/34, WARD NUMBER 16, CONSTRUCTED ON LEASE HOLD PLOT NUMBER 35, BLOCK C, HEASTING ROAD, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 9

Genus
PAPER & BOARDS LIMITED

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए अखिरवर्षीय वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त
		31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	
1	कुल राजस्व (मिलियन ₹)	1,16,54.88	1,18,59.11	1,18,59.11	1,16,54.88	1,18,59.11	1,18,59.11	1,16,54.88	1,18,59.11	1,18,59.11	
2	कुल व्यय (मिलियन ₹)	69,54.57	67,83.66	67,83.66	69,54.57	67,83.66	67,83.66	69,54.57	67,83.66	67,83.66	
3	कुल लाभ (मिलियन ₹)	47,00.31	50,75.45	50,75.45	47,00.31	50,75.45	50,75.45	47,00.31	50,75.45	50,75.45	

वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए अखिरवर्षीय वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त		
		31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
1	कुल राजस्व (मिलियन ₹)	498.43	505.70	512.00	498.43	505.70	512.00	498.43	505.70	512.00
2	कुल व्यय (मिलियन ₹)	101.37	264.18	474.33	101.37	264.18	474.33	101.37	264.18	474.33
3	कुल लाभ (मिलियन ₹)	397.06	241.52	337.67	397.06	241.52	337.67	397.06	241.52	337.67

जिंदल पॉली फिल्मस लिमिटेड

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए अखिरवर्षीय वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त		
		31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
1	कुल राजस्व (मिलियन ₹)	1,16,54.88	1,18,59.11	1,18,59.11	1,16,54.88	1,18,59.11	1,18,59.11	1,16,54.88	1,18,59.11	1,18,59.11
2	कुल व्यय (मिलियन ₹)	69,54.57	67,83.66	67,83.66	69,54.57	67,83.66	67,83.66	69,54.57	67,83.66	67,83.66
3	कुल लाभ (मिलियन ₹)	47,00.31	50,75.45	50,75.45	47,00.31	50,75.45	50,75.45	47,00.31	50,75.45	50,75.45

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए अखिरवर्षीय वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त		
		31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
1	कुल राजस्व (मिलियन ₹)	5,043.30	3,319.03	2,509.81	5,043.30	3,319.03	2,509.81	5,043.30	3,319.03	2,509.81
2	कुल व्यय (मिलियन ₹)	3,329.83	2,366.75	2,362.33	3,329.83	2,366.75	2,362.33	3,329.83	2,366.75	2,362.33
3	कुल लाभ (मिलियन ₹)	1,713.47	952.28	1,147.48	1,713.47	952.28	1,147.48	1,713.47	952.28	1,147.48

जिंदल पॉली इन्वैस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए अखिरवर्षीय वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त		
		31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
1	कुल राजस्व (मिलियन ₹)	1,16,54.88	1,18,59.11	1,18,59.11	1,16,54.88	1,18,59.11	1,18,59.11	1,16,54.88	1,18,59.11	1,18,59.11
2	कुल व्यय (मिलियन ₹)	69,54.57	67,83.66	67,83.66	69,54.57	67,83.66	67,83.66	69,54.57	67,83.66	67,83.66
3	कुल लाभ (मिलियन ₹)	47,00.31	50,75.45	50,75.45	47,00.31	50,75.45	50,75.45	47,00.31	50,75.45	50,75.45

वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए अखिरवर्षीय वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त			वर्ष समाप्त		
		31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
1	कुल राजस्व (मिलियन ₹)	498.43	505.70	512.00	498.43	505.70	512.00	498.43	505.70	512.00
2	कुल व्यय (मिलियन ₹)	101.37	264.18	474.33	101.37	264.18	474.33	101.37	264.18	474.33
3	कुल लाभ (मिलियन ₹)	397.06	241.52	337.67	397.06	241.52	337.67	397.06	241.52	337.67

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

FINANCIAL EXPRESS

वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए अखिरवर्षीय वित्तीय परिणामों का विवरण



INTEGRA CAPITAL LIMITED
(Formerly known as Integra Capital Management Limited)
CIN No. L74899DL1990PLC040042 | GST TIN-07AAAC0828F2ZX
Regd. Office: 32, Regal Building, Sansad Marg, New Delhi-110001

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2025
(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	105.97	(29.47)	29.53
2	Net Profit From Ordinary Activities after Tax	64.80	(30.05)	-6.57
3	Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional Items)	64.80	(30.05)	23.43
4	Paid up Equity Share Capital (Face Value per Share is Rs.10)	470.28	470.28	470.28
5	Reserves excluding Revaluation Reserve	-	-	17.10
6	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each (Not Annualised))			
	(a) Basic and Diluted EPS (before exceptional items (In Rs.))	1.38	(0.64)	0.50
	(b) Basic and Diluted EPS (After exceptional items (In Rs.))	1.38	(0.64)	0.50

Notes: The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website, www.bseindia.com and on the company's website.

For Integra Capital Limited (Formerly known as Integra Capital Management Limited) Sd/- Tarun Vohra Managing Director DIN No. 00030470

Place : New Delhi
Date : 14.02.2026

NAM SECURITIES LIMITED CIN: L74899DL1994PLC350531
Registered Office: 213, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Email Id: info@namsecurities.in, Website: www.namsecurities.in

Extract of Unaudited Financial Result for Quarter Ended 31st December, 2025 (Rs.in Lacs)

Sl. No.	PARTICULARS	For the Quarter Ended			For the Nine months Ended			For the Year Ended 31.03.2025 Audited
		31.12.2025 Unaudited	30.09.25 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.12.25 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited	
1	Total Income from Operations	1166.66	856.68	1138.17	3210.04	6106.85	6671.18	
2	Net Profit/(Loss) before Tax -Before Exceptional &/or Extraordinary Items -After Exceptional &/or Extraordinary Items	8.33	22.86	11.89	50.78	69.37	47.89	
3	Net Profit/(Loss) after Tax -Before Exceptional &/or Extraordinary Items -After Exceptional &/or Extraordinary Items	6.33	16.86	9.89	38.78	54.37	35.66	
4	Equity Paid-up Share Capital	539.20	539.20	539.20	539.20	539.20	539.20	
5	Reserves(excl. Resv. Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Prev. year	-	-	-	-	-	595.93	
6	Earnings Per Share (EPS) before extraordinary Items							
	-Basic	0.12	0.31	0.18	0.72	1.00	0.66	
	-Diluted	0.12	0.31	0.18	0.72	1.00	0.66	

Notes: -1) The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2025 filed with BSE under Regn.33 of SEBI (LODR) Regulation 2015. The full format of the Qr. ended 31st December, 2025 are available on the websites of BSE (www.bseindia.com) & on Co.'s website (www.namsecurities.in).
2) The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee & subsequently approved by Board of Directors at its meeting held on February 14, 2026.

For: Nam Securities Limited Sd/- (Kiran Goyal) Managing Director DIN: 00503357

Place: New Delhi
Date: 14.02.2026

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI,
4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI - 110001

SALE PROCLAMATION

T.R.C. No. 1713/2022

PUNJAB NATIONAL BANK (e-NBC) Vs. MANJIT KUMAR AND ANR.
PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993.

(CD1) MANJIT KUMAR (SINCE DECEASED), REPRESENTED THROUGH LEGAL HEIRS:
(i) MRS. SUMAN ANAND (WIFE OF LATE MANJIT KUMAR), 1/4981-A2, SHIV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(ii) SHWANI ANAND (SON OF LATE MANJIT KUMAR), 1/4981-A2, SHIV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(iii) SHWETA TALWAR W/O AMIT TALWAR (DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR), B-283, LALAACHINATARAM MARG, DERAWAL NAGAR, MODEL TOWN, DELHI-110009
(iv) RUKMANI ANAND W/O NAKUL ANAND, CIO SUMAN ANAND, (DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR), 1/4981-A2, SHIV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
(v) RAJNI ANAND (UNMARRIED DAUGHTER OF LATE MANJIT KUMAR) 1/4981-A2, SHIV NAGAR KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

(CD2) M/S SHWANI JEWELLERS, 2736-B, AJMAL KHAN ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 ALSO AT: 1/4981-A2, SHIV NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

1. Whereas Transfer Recovery Certificate No. 1713/2022 in O. A. No. 272/2000 drawn by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Delhi for the recovery of a sum of Rs.92079443.00 together with costs and future interest @ 18.36% p. a. with quarterly rests, from the date of filing of O. A. i.e. 01/06/2000 till its realization along with cost from the Certificate debtors together with costs and charges as per recovery certificate.

2. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said certificate.

3. And whereas there will be due there under a sum of Rs.92079443.00 together with costs and future interest @ 18.36% p. a. with quarterly rests, from the date of filing of O. A. i.e. 01/06/2000 till its realization along with cost. Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the property/properties as under shall be sold by e-auction and bidding shall take place through "On line Electronic Bidding through the website <https://www.bankauctions.com> on 20/03/2026 between 12.00 pm and 01.00 pm with extensions of 5 minutes duration after 01.00 pm, if required.

4. The description of the property proposed to be e-auctioned is as follows:

Sl. No.	Description of property	Reserve Price	EMD
1.	PROPERTY I.E. HOTEL BLUE SAPPHIRE, NO. 3351-54, WARD NUMBER 16, CONSTRUCTED ON LEASE HOLD PLOT NUMBER 32, BLOCK Q, MEASURING 195 SQ. YARDS, KHASRA NUMBER 3295/3115, 3116, 3117 AND 3120 SITUATED AT CHRISTIAN COLONY, BASTI REHGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI	Rs. 12,91,00,000.00	Rs. 1.30 CRORES

5. The EMD shall be paid through Demand Draft/Pay Order in favour of Recovery Officer, DRT-I, Delhi-A/C T.R.C. No. 1713/2022 along with self-attested copy of Identity (voter I-card/Driving/License/passport) which should contain the address for future communication and self-attested copy of PAN Card must reach to the Office of the Recovery Officer, DRT-I, Delhi latest by 17/03/2026 before 5.00 PM. The EMD received thereafter shall not be considered. The said deposit to be adjusted in the case of successful bidders. The unsuccessful bidder shall take return of the EMD directly from the Registry, DRT-I, Delhi after receipt of such report from e-auction service provider/bank financial institution on closure of the e-auction sale proceedings.

6. The envelope containing EMD should be super-scribed "T.R.C. No. 1713/2022" along with the details of the sender i.e. address, e-mail ID and Mobile Number etc.

7. Intending bidders shall hold a valid Login ID and Password to participate in the E-Auction email address and PAN Number. For details with regard to Login ID & Password, please contact M/s C-1 INDIA PVT. LTD., PLOT NO. 68, 3RD FLOOR, SECTOR-44, GURUGRAM 122003, HARYANA, INDIA HELPLINE No. 7291981124/25/26, P. DHARANI KRISHNA, MOBILE No. 9948182222, WEBSITE: <http://www.bankauctions.com>, and Email support@bankauctions.com, dharani.p@c1india.com

8. Prospective bidders are required to register themselves with the portal and obtain user ID/password well in advance, which is mandatory for bidding in above e-auction from M/s C 1 INDIA PVT. LTD.

9. Details of concerned bank officers/Help line numbers etc. are as under:-

Name & Designation	Email & Phone Nos.
DEEPAK KUMAR (CHIEF MANAGER)	7769988880, cs8075@pnbb.bank.in

10. What is proposed to be sold are the rights to which the certificate debtors are entitled in respect of the properties. The properties will be sold along with liabilities, if any. The extent of the properties shown in the proclamation is as per the Recovery Certificate schedule. Recovery Officer shall not be responsible for any variation in the extent due to any reason. The properties will be sold on 'as is where is' and 'as is what is' condition.

11. The property can be inspected by prospective bidder(s) before the date of sale for which the above named officer of the bank may be contacted.

12. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.

13. EMD of unsuccessful bidders will be received by such bidders from the Registry of DRT-I, on identification/production of Identity proof viz. PAN Card, Passport, Voter's ID, Valid Driving License or Photo Identity Card issued by Govt. and PSUs. Unsuccessful bidders shall ensure return of their EMD and, if not received within a reasonable time, immediately contact the Recovery Officer, DRT-I, Delhi or the Bank.

14. The sale will be of the property of the above named CDs as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot.

15. The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that a portion of such certificate, interest costs and charges have been paid to the undersigned.

16. No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

17. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions: The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.

18. The amount by which the biddings are to be increased shall in multiple of Rs. 1,00,000.00 (Rs. One Lac Only). In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.

19. The Successful/Highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided that further that the amount bid by him is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the undersigned to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so.

20. Successful/ highest bidder shall have to prepare DD/Pay order for 25% of the sale proceeds favoring Recovery Officer, DRT-I, Delhi. A/C. T.R.C. No. 1713/2022 within 24 hours after close of e-auction and after adjusting the earnest money (EMD) and depositing/depositing the same in the office of the Recovery Officer so as to reach within 3 days from the close of e-auction failing which the earnest money/EMD shall be forfeited.

21. The Successful/Highest Bidder shall deposit, through Demand Draft/Pay Order favoring Recovery Officer, DRT-I, Delhi A/C T.R.C. No. 1713/2022 the balance 75% of the sale proceeds before the Recovery Officer, DRT-I on or before 15th day from the date of sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first day after the 15th day along with the postage fee @ 2% upto Rs.1,000 and @ 1% on the excess of such gross amount over Rs. 1000/- in favor of Registrar, DRT-Delhi. In case of deposit of balance amount of 75% through post the same should reach the Recovery Officer as above.)

22. In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or any part of the sum for which it may subsequently be sold.

SCHEDULE OF PROPERTY

Lot No.	Description of the property to be sold with the names of the co-owners where the property belongs to the defaulter and any other person as co-owners.	Revenue assessed upon the property or any part thereof	Details of any encumbrance to which property is liable	Claims, if any, which have been put forward to the property, and other known particulars bearing on its nature and value.
1.	PROPERTY I.E. HOTEL BLUE SAPPHIRE, NO. 3351-54, WARD NUMBER 16, CONSTRUCTED ON LEASE HOLD PLOT NUMBER 32, BLOCK Q, MEASURING 195 SQ. YARDS, KHASRA NUMBER 3295/3115, 3116, 3117 AND 3120 SITUATED AT CHRISTIAN COLONY, BASTI REHGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI			No information received

Given under my hand and seal on 12/02/2026

NIRANJAN SHARMA, Recovery Officer-II,
Debts Recovery Tribunal-1, Delhi

VLS FINANCE LIMITED
Regd. Office:- Ground Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020
CIN: L65910DL1986PLC023129

E-mail: vis@vlsfinance.com, Website: www.vlsfinance.com Ph: 011-4665 6666

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

In compliance with Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of VLS Finance Limited ("the Company") at its meeting held on Friday, February 13, 2026 has approved the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company, for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

The said results along with Limited Review Reports on these Results issued by M/s Agival & Associates, Statutory Auditors of the Company, are available on the website of the Company at <https://www.vlsfinance.com/financial-results/> and submitted for dissemination to the concerned Stock Exchanges i.e. BSE Ltd., National Stock Exchange of India Ltd. and The Calcutta Stock Exchange Ltd. at their respective websites.

In compliance with Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, it is hereby notified that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:



Date: February 13, 2026
Place: New Delhi

for VLS Finance Limited Sd/- S.K. Agarwal Managing Director DIN: 00106763

Notice of special Window for Re- lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

In accordance with SEBI Circular No. SEBIHO/38/13/11/2/2026- MIRDSD-PDN/3750/2026 dated January 30, 2026, notice to the shareholders of VLS Finance Limited is hereby given that the Company has opened a special window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities, which were sold/purchased prior to April 01, 2019 including cases which were rejected, returned or not attended due to deficiency in the documents or otherwise. The said window will be open for a period of one year from February 05, 2026, till February 04, 2027. It is to be noted that the person lodging the requests should inter alia have the share certificates and the transfer deed executed prior to April 01, 2019 in original, failing which the request will not be processed. The transferred securities will be credited to the transferee in demat mode only upon approval after submission of complete documents which shall be subject to verification of the same by RTA/Company and shall be under lock in for a period of one year from the date of registration of transfer. A copy of the aforesaid circular detailing the conditions can be assessed from website of the Company at <https://www.vlsfinance.com/>

All the Investor / Transferee who wish to avail this opportunity shall be required to submit the documents as listed in the circular to Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. RCMC Share Registry Private Limited, B-25/1 First Floor, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi-110 020. Email: investor_services@rcmcdelhi.com, Phone Nos. 011 - 26387320-21, 35020465-66.

Appeal to members for updating PAN and other details ('KYC' details) in records of the Company.

SEBI vide its mail to all Registrar and Share Transfer Agents ('RTA's') on 23.01.2024, has directed that after 1st April 2024, dividend to the shareholders, holding shares in physical form, who have not updated all the information viz. PAN, Choice of Nomination, Contact Details, phone/mobile number, email address, postal address, bank account details and specimen signature in the records of the Company, will be paid through electronic mode only after update of above details in the records of the Company. Thus, post 1st April 2024, the Company had not been remitting any dividend, on the shares on which above details were not registered in the records of the Company. Hence, we request you to provide/update all your KYC details mentioned above in prescribed forms i.e. ISR-1, ISR-2, SH-13 or ISR-3, available at website of the Company at <https://www.vlsfinance.com/kyc/>. The said forms can be sent to the RTA viz. RCMC Share Registry Private Limited or to the Company at the addresses mentioned below, which would also facilitate timely communications by the Company to the member:

Company's address:	Registrar & Share Transfer Agent's address:
VLS FINANCE LIMITED Regd. Office:- Ground Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 E-mail: vis@vlsfinance.com Website: www.vlsfinance.com Ph: 011-4665 6666	M/s. RCMC Share Registry Pvt. Limited B-25/1 First Floor, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi-110 020 Email: investor_services@rcmcdelhi.com Website: www.rcmcdelhi.com Phone Nos. 011 - 35020465-66

The members holding shares in electronic mode are requested for aforesaid reasons to contact their depository participant for updating KYC details, if not updated already.

This appeal is intended to reach out to the stakeholders to update their KYC, bank mandates, Nominee and contact information inter alia to prevent their shares from being transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) in future and to facilitate seamless communication from the Company to the members.

ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED
Registered Office:- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-362266
Corporate Office:- R-Tech Park, 12th Floor, Nirfon Complex, off Western Expressway, Goregan East -Mumbai -400663.

DEMAND NOTICE

UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("THE ACT") READ WITH RULE 3 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("THE RULES")

On account of the amalgamation between Aditya Birla Finance Ltd. and Aditya Birla Capital Ltd. vide the Scheme of Amalgamation dated 11.03.2024 duly recorded in the Order passed by the National Company Law Tribunal - Ahmedabad on 24.03.2025, all SARFAESI actions initiated by Aditya Birla Finance Ltd. in relation to the mortgaged property mentioned, stands transferred to Aditya Birla Capital Ltd., the amalgamated company.

Accordingly the undersigned being the Authorized officer of Aditya Birla Capital Limited (ABCL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13(2) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are availing the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) to pay to ABCL, within 60 days from the date of the respective Notice(s), the amount indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents / writings, if any, executed by the said Borrower's. As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to ABCL by the said Borrower's respectively.

Sr No	Name and Address of the Borrower(s)	Demand Notice Date and NPA Date	Description of Immovable Property
1	1.MR. AKHIL SHARMA S/O KRISHAN MOHAN SHARMA, 147 MISHRA Ji Ki HAWELI KAYASTHWARA DEOBAND, SAHARANPUR UTTAR PRADESH - 247554 MOBILE No. - 9012863603, EMAIL: akhilsharma@rediffmail.com ALSO AT: MR. AKHIL SHARMA PROPRIETOR OF A S ENTERPRISES MOHALLA KAYASTHWARA DEOBAND SAHARANPUR - 247554. ALSO AT: MR. AKHIL SHARMA S/O KRISHAN MOHAN SHARMA, HOUSE NO. 463, MOHALLA KAYASTHWARA DEOBAND, SAHARANPUR-247554	09-02-2026 & 03-02-2026	All That Piece And Parcel Of The Property Bearing House No. 463, Having Area 265.888 Sq. Yds. Having Dimension N: East & West 40 Ft. In North & South - 52 Ft. Situated At Mohalla Kayasthwara Town Deoband, Pargana & Tehsil Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh. Boundaries As Per Actual: East: House Of Ranjeet Rohela, West: Road 15 Ft. Wide, North: House Of Ajit, South: House Of Ravi. Boundaries As Per Gift Deed No. 4128 Dated 01-04-2024. East: House Of Ranjeet Rohela, West: Road 6 Mtr. Wide, North: Plot Of Akhil Sharma, South: Gairaj Ravi. Boundaries As Per Sale Deed No. 5451 Dated 09-06-2023. East: House Of Ranjeet Rohela, West: Road 15 Mtr. Wide, North: Plot Of Pran Mohan Sharma, South: Property Of Akhil Sharma. Boundaries As Per Sale Deed No. 5450 Dated 09-06-2023. East: House Of Ranjeet Rohela, West: Road 15 Mtr. Wide, North: House Of Vijay Kashyap, South: Plot Of Vijay Sharma & Atul Sharma.
2	1.M/S E P S (ENGINEERING PLOT SOLUTION) THROUGH OTS PROPRIETOR MR. JAYBHADRA JHA KATORI MILL PLOT NO. 23, MOHAN NAGAR GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201007. ALSO AT: M/S E P S (ENGINEERING PLOT SOLUTION) THROUGH OTS PROPRIETOR MR. JAYBHADRA JHA PLOT NO. 127, 128 & 129, KHASRA NO. 66MI VILLAGE SAHIBABAD, PARGANA LONI GHAZIABAD UTTAR PRADESH-201007. 2.MR. JAYBHADRA JHA S/O SHOBHA NARAYAN JHA, H. NO. 128, GALI NO. 2, OM NAGAR, MOHAN NAGAR GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201007. MOBILE NO. - 9211617160, EMAIL: jharites2008@gmail.com ALSO AT: MR. JAYBHADRA JHA S/O SHOBHA NARAYAN JHA, PLOT NO. 127, 128 & 129, KHASRA NO. 66MI VILLAGE SAHIBABAD, PARGANA LONI GHAZIABAD UTTAR PRADESH-201007. 3. MR. SHANU KUMAR JHA S/O MR. JAYBHADRA JHA, H. NO. 128, GALI NO. 2, OM NAGAR, MOHAN NAGAR GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201007. MOBILE NO. - 8750118344. ALSO AT: MR. SHANU KUMAR JHA S/O MR. JAYBHADRA JHA PLOT NO. 127, 128 & 129, KHASRA NO. 66MI VILLAGE SAHIBABAD, PARGANA LONI GHAZIABAD UTTAR PRADESH-201007. 4.MRS. ANUJA JHA W/O MR. JAYBHADRA JHA, H. NO. 128, GALI NO. 2, OM NAGAR, MOHAN NAGAR GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201007. MOBILE NO. 912329737. ALSO AT: MRS. ANUJA JHA W/O MR. JAYBHADRA JHA, PLOT NO. 127, 128 & 129, KHASRA NO. 66MI VILLAGE SAHIBABAD, PARGANA LONI GHAZIABAD UTTAR PRADESH-201007. Loan Account No. - ABSAHS000000814045 & ABSAHS000000815417	09-02-2026 & 03-02-2026	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE PART OF PLOT BEARING NO. 127 AREA MEASURING 45SQ. YRDS. I.E. 37.62 SQ. MTRS. ILL PLOT BEARING NO. 128 AREA MEASURING 25SQ. YRDS. I.E. 21SQ. MTRS. ILL PLOT BEARING NO. 129(SOUTHERN PORTION) AREA MEASURING 25.09 SQ. YDS. I.E. 21.65 SQ. MTRS. ALL FALLING IN KHASRA NO. 66MI, SITUATED AT VILLAGE SAHIBABAD, PARGANA LONI, TEHSIL & DISTRICT GHAZIABAD UTTAR PRADESH. TOTAL AREA MEASURING 983 SQ. FT. AND IS BOUNDED AS UNDER : BOUNDARIES AS PER THE ACTUAL SITE EAST -15 FT. WIDE ROAD, WEST - OTHER VACANT PROPERTY, NORTH - OTHER PROPERTY, SOUTH - OTHER PROPERTY. BOUNDARIES OF THE PLOT NO.128, EAST : 16 FT. WIDE ROAD, WEST : OTHER PROPERTY, NORTH : SELLER'S PROPERTY, SOUTH : PLOT NO.-127 HARI NARAYAN. BOUNDARIES OF THE PLOT NO.129, EAST : SELLER PROPERTY & 18'10" WIDE RASTA, WEST : PROPERTY OF ANAHAR, NORTH : SELLER'S PROPERTY, SOUTH : VACANT PROPERTY OF ANUJA JHA.
3	1.M/S SUNAKSHI TRADING COMPANY THROUGH ITS PROPRIETOR MR. MANOJ RATHAUR, PLOT NO.-29, KHASRA NO.-40, SHIVAM VATIKA MAYAPUR KHERIA, AGRA -282010. EMAIL - thramanidrarathaur654@gmail.com. ALSO AT - M/S SUNAKSHI TRADING COMPANY THROUGH ITS PROPRIETOR MANOJ RATHAUR, 30-B/164, BALDEV NAGAR NAI ABADI, GOBER CHAUKI TAGJANI, AGRA-282001. U.P. 2.MR. MANOJ RATHAUR S/O TARA CHAND , PLOT NO.-29, KHASRA NO.-40, SHIVAM VATIKA MAYAPUR KHERIA, AGRA-282010. M-639845834. ALSO AT: MRS. GUDDI DEVI W/O TARA CHAND, PLOT NO.-29, KHASRA NO.-40, SHIVAM VATIKA MAYAPUR KHERIA, AGRA-282010. U.P. 3.MRS. GUDDI DEVI W/O TARA CHAND, PLOT NO.-29, KHASRA NO.-40, SHIVAM VATIKA MAYAPUR KHERIA, AGRA-282010. U.P. 4.MR. TARA CHAND RATHAUR S/O MOHAN LAL RATHAUR, PLOT NO.-29, KHASRA NO.-40, SHIVAM VATIKA MAYAPUR KHERIA, AGRA-282010. ALSO AT: MR. TARA CHAND RATHAUR S/O MOHAN LAL RATHAUR, 30-B/164, BALDEV NAGAR, NAI ABADI, GOBER CHAUKI TAGJANI, AGRA-282001. U.P. Loan Account No. - ABAGRS000000564807	09-02-2026 & 03-02-2026	All That Piece And Parcel Of The Property I.E., Part Of Plot No.-29 And Plot No.-30, Both Plot Together Admeasuring 155.51 Sq. Mtrs. I.E., 186 Sq. Yds. Part Of Kharsa No.40, Together With Structure Thereon Situated At Shivam Vatika, Mauza- Mayapur, Tehsil And District Agra And Bounded As Under: East - Rasta 7.32 Mtr. Wide West - Part Of Plot No. 28 North - Part Of Plot No.29 South - Plot No. 20 And 19
4	1.MR. NAND KISHORE S/O BHOGRAM, 46/98A/1, BHEEM NAGAR JAGDISHPURA AGRA-282002. ALSO AT: MR. NAND KISHORE PROPRIETOR M/S ANANYA FOOTWEAR, 46/98R/178, BHEEM NAGAR JAGDISHPURA, AGRA-282002. M-997546538. EMAIL-n29309146@gmail.com ALSO AT: MR. NAND KISHORE S/O BHOGRAM, 46/226, BHIM NAGAR, JAGDISH PURA CIVIL LINES, AGRA-282002. 2.MRS. INDRAVATI W/O NANDAN, 46/275, BHIM NAGAR, JAGDISH PURA CIVIL LINES, AGRA-282002, M-8979833372. EMAIL - indravati1972@gmail.com. ALSO AT: MRS INDRAVATI W/O NANDAN 46/226, BHIM NAGAR, JAGDISH PURA CIVIL LINES, AGRA-282002. Loan Account No. ABAGRS000000710266	09-02-2026 & 03-02-2026	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE HOUSE CONSTRUCTED THEREON, BEARING MUNICIPAL NO. 46/226, NAGAR NO-141, HAVING AREA MEASURING 66.88 SQ. MTRS. AND COVERED AREA MEASURING 34.48 SQ. MTRS. SITUATED AT BHEEM NAGAR, LOHAMANDI WARD, TEHSIL & DISTRICT - AGRA-282002 AND BOUNDED AS UNDER: EAST - HOUSE OF CHHOTTEY LAL KAMR WEST - HOUSE OF BHOCHI RAM NORTH - ROAD 20 FT. WIDE & OPENING SOUTH - HOUSE OF PAPPU MAHOR

With further interest, additional interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrower's shall fail to make payment to ABCL as aforesaid, then ABCL shall proceed against the above Secured Asset(s) / Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable rules, entirely at the risk of the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) as to the costs and consequences. The said Borrower's/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s) / Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of ABCL. That please note that this is a final notice under Sec. 13(2) of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002). Needless to say, that ABCL shall be within its right to exercise any or all of the rights referred to above against the borrower(s) entirely at their risk, responsibility & costs. Date: 15.02.2026, Place: Agra, GhaZIabAd, Saharanpur

Authorised Officer, Aditya Birla Capital Limited

AASHRIT CAPITAL LIMITED
CIN : L65923DL1972PLC317436
Regd. Office : Select City Walk, 6th Floor, A-3, District Centre, Saket, New Delhi-110017

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31.12.2025
PART I (Rs in lakh)

Particulars	3 Months Ended 31.12.2025		Corresponding 3 Months Ended in previous year 31.12.2024		Year to Date 31.12.2025
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1 Total income from operations (net)	207.66	308.93			

Genus energizing lives													
GENUS PAPER & BOARDS LIMITED													
Regd. Office : Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh													
Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020													
Ph.: 0591-2511242 E-mail: cs@genuspaper.com Website: www.genuspaper.com CIN: L21098UP2012PLC048300													
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025													
(Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated)													
S. No.	PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		Quarter ended			Nine Months ended			Quarter ended			Nine Months ended		
		December 31, 2025	September 30, 2025	December 31, 2024	December 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2025	December 31, 2025	September 30, 2025	December 31, 2024	December 31, 2025	September 30, 2025	December 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total income from operations	22070.86	24268.79	20960.79	71397.01	62602.41	85078.00	23754.86	24458.86	21327.96	73761.96	63660.91	86501.65
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	217.55	453.33	159.47	1093.09	502.55	819.32	147.05	364.03	24.32	762.03	242.50	290.40
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	217.55	453.33	159.47	1093.09	502.55	819.32	147.05	364.03	24.32	762.03	242.50	290.40
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	212.64	449.28	157.21	1077.91	494.91	807.94	147.05	364.03	24.32	762.03	242.50	290.40
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	212.64	449.28	157.21	1077.91	494.91	2,417.95	288.24	382.04	54.31	944.29	294.79	1,960.91
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each)	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (Face value of Re.1/- each) - (for continuing and discontinued operations) (not annualised) (amount in Rs.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basic	0.08	0.17	0.06	0.42	0.19	0.31	0.11	0.15	0.02	0.37	0.11	0.11
	Diluted	0.08	0.17	0.06	0.42	0.19	0.31	0.11	0.15	0.02	0.37	0.11	0.11

- Notes:
- The above unaudited financial results of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on February 13th, 2026. Limited review of these results as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued an unqualified review report thereon. The full format of the results is available on the website of the stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.genuspaper.com).
 - The above unaudited standalone and consolidated financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
 - Previous year/period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to those current year classification.



For and on behalf of the Board of Directors
(Sanjay Kumar Agarwal)
Whole Time Director & CFO
DIN: 11236645

Place: Moradabad
Date: February 13, 2026

जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड												
सीआईएन: L17111UP1974PLC003979												
पंजी. कार्यालय: 19 कोए. हाउस बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलाबती, बुलन्दशहर (उ.प्र.) - 245408												
प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 87, सेक्टर-32, इस्टीमेटेड एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-121001												
31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण												
(इंजीनर ओडकर राशि लाख रुपये में)												
समाप्त तिमाही	समेकित			विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त तिमाही				
	31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024		31-12-2025	31-12-2024	31-03-2025					
31.12.2025	41,039.13	1,18,593.54	1,69,565.07	3,41,925.91	4,66,518.07	परिचालन से कुल आय	10.40	-	147.07	10.40	147.07	147.07
(7,802.79)	(1,469.91)	1,828.85	(784.01)	27,003.89	8,136.97	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	9,249.24	(186.90)	(535.37)	24,119.02	37,500.52	34,647.38
(8,044.57)	(1,469.91)	1,828.85	(1,025.79)	40,854.77	13,610.77	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	9,245.18	(4,167.01)	(535.37)	20,134.85	51,151.40	45,693.62
(9,691.88)	(1,340.86)	410.55	(7,381.14)	28,879.83	10,978.81	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	7,540.82	(1,507.00)	(250.92)	15,293.77	37,930.94	38,324.30
(9,488.37)	188.67	(852.61)	(3,926.96)	29,076.40	12,307.55	आय के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	7,572.37	(1,516.91)	(250.92)	15,315.41	37,961.94	38,346.68
4,378.64	4,378.64	4,378.64	4,378.64	4,378.64	4,378.64	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 10/-)	4,378.64	4,378.64	4,378.64	4,378.64	4,378.64	4,378.64
					4,07,445.98	आरक्षित निधि (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि छोड़कर) जैसा पिछले वर्ष के तुलना पत्र में दिखाया गया है						6,10,234.91
(22.13)	(3.06)	0.54	(16.86)	65.96	25.08	प्रति शेयर मूल और परिणाम आय / (हानि)	17.22	(3.44)	(0.57)	34.93	86.63	87.53

- Notes:
- वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल की संशोधित नैतिक में रिपोर्ट पर लिया गया है और उसकी सीमित समीक्षा समिति के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।
 - वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस") के सहपठित उसके प्रासंगिक नियमों के अनुरूप निर्मित और जारी किए गये हैं।
 - पिछली अवधियों के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहीकृत और पुनःव्यवस्थित किया गया है, ताकि वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके।
 - उपरोक्त विवरण, सभी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (bseindia.com और www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.jindalpoly.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड
हस्ता/-
विजेंद्र कुमार सिंगल
(पूर्णकालिक निदेशक)
सीआईएन-09763670

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 14.02.2026

जिंदल पॉली इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड												
सीआईएन: L65923UP2012PLC051433												
पंजी. कार्यालय: 19 कोए. हाउस बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलाबती, बुलन्दशहर (उ.प्र.) - 245408												
प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 12, स्थानीय शांति कॉम्प्लेक्स, सेक्टर बी-1, बसना कुज, नई दिल्ली-110070												
वेबसाइट: www.jpifcl.com ; ईमेल: cs.jpifcl@jindalgroup.com ; फोन: 011-40322100												
31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण												
(इंजीनर ओडकर राशि लाख रुपये में)												
समाप्त तिमाही	समेकित			विवरण	रटैंडअलोन			समाप्त तिमाही				
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024		31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025					
96.181	1,912	780	98,928	2,386	3,169	परिचालन से कुल आय	96.181	1,912	780	98,928	2,386	3,169
96.139	1,865	733	96,794	2,247	2,982	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	96.139	1,865	733	96,794	2,247	2,982
83,957	6,135	3,412	96,485	23,135	27,002	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद) और मूल इक्विटी धारक को आरोप्य निर्-निर्मित व्याज और सहयोगी से लाभ का हिस्सा,	96,139	1,865	733	96,794	2,247	2,982
70,205	5,754	3,343	82,235	22,919	29,584	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) निर्-निर्मित व्याज और सहयोगी से लाभ का हिस्सा, मूल इक्विटी धारक को आरोप्य	82,387	1,484	664	84,544	2,031	5,564
70,021	6,045	3,045	83,473	23,774	30,506	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और मूल इक्विटी धारक को आरोप्य अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	82,387	1,484	664	84,544	2,031	5,564
1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 10/-)	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051
					1,51,398	अन्य इक्विटी (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि छोड़कर)						70,040
667.86	54.74	31.81	782.30	218.03	281.43	प्रति शेयर मूल और परिणाम आय / (हानि)	783.75	14.12	6.34	804.27	19.33	52.93
667.86	54.74	31.81	782.30	218.03	281.43	प्रति शेयर परिणाम आय / (हानि)	783.75	14.12	6.34	804.27	19.33	52.93

- Notes:
- वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस") के सहपठित उसके प्रासंगिक नियमों के अनुरूप निर्मित किए गये हैं।
 - इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और 13.02.2026 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में रिपोर्ट पर लिया गया है और कंपनी के वित्तीय लेखा परीक्षकों द्वारा इन परिणामों का लेखा परीक्षा किया गया है।
 - कंपनी मुख्य रूप से निवेश गतिविधि में संलग्न है और इसका व्यवसाय का केवल एक परिणाम है और यह इंड एएस 108 के तहत डिफॉर्मिंग के लिए योग्य नहीं है।
 - 31.03.2025 को समाप्त साल के लिए आर्यगणित कर में आसकर कानूनी में बदलाव और कैपिटल गेन पर लागू कर की वरी का असर शामिल है।
 - नई श्रम संहिताएं 21.11.2025 से लागू हो गई हैं। इन संहिताओं के तहत सभी संबंधित सहायक नियमों को अमी अधिसूचित किया जाना बाकी है। नई श्रम संहिताएं के बने अंतर का कंपनी का आकलन, जो जानकारी मौजूद है, वह जरूरी नहीं है और 31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों में इसे माना गया है। एक बार जब सरकार संहिताओं के सभी पहलुओं पर केंद्रीय/राज्य नियमावली अधिसूचित कर देगी, तो कंपनी कर्मचारी तमामों के परिणाम पर इसका असर का मूल्यांकन करेगी, यदि कोई हो, और सही लेखांकन टैक्स सुनिश्चित करेगी।
 - जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड (JIPTL) (सहयोगी कंपनी) के निदेशक मंडल ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के नियमों और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार, 10.01.2025 को आयोजित अपनी बैठक में एक व्यवस्था की योजना ("योजना") पर विचार किया और उसे स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें कंपनी के पावर बिजनेस डिवीजन को उसकी सहयोगी कंपनी जिंदल इंडिया पावर लिमिटेड (परिणामी कंपनी) के साथ विलय करना शामिल है। इस योजना की एक कॉपी माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंच-V, नई दिल्ली ("ट्रिब्यूनल") के सामने भी फाइल की गई थी। माननीय ट्रिब्यूनल ने अपने 10.11.2025 के आदेश के माध्यम से इस योजना को स्वीकृति दे दी है, यह आदेश JIPTL ने 11.12.2025 (प्रभावी तिथि) को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल किया है, जिसकी नियुक्ति तिथि 01.04.2025 है।
 - पिछली तिमाही/अवधि/वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो, उन्हें तुलनीय बनाने के लिए पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
 - कंपनी के परिणाम निवेशकों के लिए कंपनी की वेबसाइट www.jpifcl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते जिंदल पॉली इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
हस्ता/-
घनश्याम दास सिंगल
प्रबंध निदेशक
सीआईएन-00708019

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.02.2026

बीएमसी फिनकोर्प लिमिटेड						
सीआईएन: एल27109एनपी1985एलसी006998						
पंजीकृत कार्यालय:- बी-10 वीआईपी फ्लोनी, विलियम रोड, रामपुर, गुपी-244901						
कोर्पो ऑफिस:- 201 और 202 इटिपल नल पन ज्योति बिल्डिंग, 18, रुडवे ब्लेस, नई दिल्ली-110008						
फोन: 011-47631025, 26, 27 ईमेल: compliance@pmfcincorp.com ; वेबसाइट: www.pmfcincorp.com						
31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश						
(रु. लाख में)						
विवरण	तिमाही समाप्ति			नौ माह समाप्ति		
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
परिचालन से कुल आय	495.43	505.70	512.99	1472.54	2030.30	2152.96
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	101.37	264.18	474.30	905.85	1,849.34	1,842.92
कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	101.37	264.18	474.30	905.85	1,849.34	1,842.92
कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	51.95	195.40	379.19	656.01	1,503.58	1,434.98
अवधि हेतु शुद्ध व्यापक आय (अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पर्यन्त) और अन्य शुद्ध व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	297.92	430.41	254.03	1,124.03	1,088.77	603.26
शुद्ध इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मूल्य) अन्य इक्विटी (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	7,120.82	7,120.82	7,120.82	7,120.82	7,120.82	7,120.82
प्रति शेयर आय (इंफोर्म) (प्रत्येक 1 रुपये) (निर्मित और वंद विभाजन से हेतु)	-	-	-	-	-	-
मूल्य:	0.01	0.03	0.05	0.09	0.21	0.20
दिल्ली:	0.01	0.03	0.05	0.09	0.21	0.20

- Notes:
- उपरोक्त सभी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर 31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही और नौ महीने के समाप्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.pmfcincorp.com पर उपलब्ध है। 31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए विस्तृत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 14.02.2026 को आयोजित उनका संबंधित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यात्रा वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पिछली अवधियों के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्निर्मित किया गया है।



कृते बीएमसी फिनकोर्प लिमिटेड
हस्ता/-
राज कुमार गोपी
प्रबंध निदेशक
सीआईएन- 01274171

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14 फरवरी, 2026

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED							
Regd. Office : Village Bhondsi, Tehsil Sohna, Dist. Gurgaon , Haryana - 122102							
Phone : +91 9654746544, 9654206544 Email: compliance.kimiabiosciences@gmail.com & info@kimiabiosciences.com , Website: www.kimiabiosciences.com , CIN : L24239HR1993PLC032120							
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS							
FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025 (₹ in Lakhs except EPS)							
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Month Ended		Year ended
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	
I	Revenue from Operations	3,010.06	3,399.93	3,009.91	8,768.40	8,067.70	11,892.08
II	Other Income	9.96	(33.17)	42.41	61.48	87	